# ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

June 29, 2021

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI) Vibgyor Towers, 4<sup>th</sup> Floor, Plot No C 62, G - Block, Opp. Trident Hotel,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400 098

## Scrip Code: ATLANTIC

Sub: Submission of newspaper clipping for publication of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2021

Dear Sir,

This is in furtherance to our letter dated June 28, 2021 regarding submission of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2021. In this respect, please find enclosed herewith Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2021 as published in 'The Financial Express' (English, Delhi & Mumbai) and 'Jansatta' (Hindi Delhi) dated June 29, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

For Atlantid Commercial Company Limited

Narendra Kishore Gaur

Chairman

DIN: 00168265

Encl: as above

E-mail id: limitedatlantic@gmail.com, Phone No.: 011 - 41539140

# FINANCIAL EXPRESS

Place: Noida

Date: 28.06.2021

on 28th June, 202 idend for the year.

nd Managing Director & CEO of or a period of three consecutive of the Company.

Director & CFO & Nodal Officer 2021 for a period of one year i.e. npany.

31,2021 are also available on www.bseindia.com)

NLUB INDUSTRIES LIMITED

VIRENDRA KUMAR GUPTA **EXECUTIVE DIRECTOR** DIN: 00006461 The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 28, 2021

The Statutory Auditors of the Company have audited the above results for the year ended March 31, 2021 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations, and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. An unmodified opinion has been issued by the Auditor and the same is being filed with the Stock exchange alongwith the above Financial results.

Since the Company operates in single segement, segement wise reporting is not applicable according to Ind AS 108.

The financial results are available on the Company's website at www.orosil.com and at the website of stock exchange www.bseindia.com.

6. Previous year's/Quarter's figures have been regrouped/reworked whenever is necessary to make them comparable with those

The Novel Coronavirus (CCVID-19), a Global Pandemic, has significantly affected the social and economic activities worldwide including India and as a result, affected the operations and results of the Company.

8. There were no investors complaints pending during the quarter and year ended 31.03.2021.

During the year under review, Mr. BK Narula, Managing Director of the Comapny-walved off his 50% remuneration, due to pandemic of Covid-19.

By the order of the Board For Orosil Smiths India Ltd.

B.K. Narula (Managing Director) DIN: 00003629

### MITED

hakarpur, New Delhi-110092 2481711

I Results 1, 2021

(Rupees in Rs)

ta			

tandalone		
	Year	Ended
11.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Audited	Audited	Audited
6,708,206	29,427,996	27,627,412
1,125,237	4,697,994	4,842,154
1,125,237	4,697,994	4,842,154
99,475,000	99,475,000	99,475,000
-		23,290,543
0.11	0.47	0.49
0.11	0.47	0,49

filed with the Stock Exchanges under nt) Regulations, 2015. The full format site i.e. (www.bseindia.com) and also

arter and year ended March 31, 2021 Board of Directors at its meeting held

> For Helpage Finlease Limited Sd/ Sidharth Goyal Managing Director

# ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140 E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

				(< in Lakn, o	except per s	nare detail)
		. (	Quarter Ende	d	Year	Ended
SI.	Particulars	31.03.2021	31.12.2020	31,03,2020	31.03.2021	31.03.2020
	33339913	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations -	4.00	-	5.00	4.00	5.00
2	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3.28	(0.32)	4.38	0.66	1.62
3	Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.28	(0.32)	4.38	0.66	1.62
4	Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.13	(0.32)	3.93	0.49	1.18
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.13	.(0.32)	3.93	0.49	1,18
6	Equity Share Capital	73.50	73,50	73.50	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-			47.75	47.26
8	Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (in ₹): 2. Diluted (in ₹):	0.43 0.43	(0.04)	0.53 0.53	0.07 0.07	0.16 0.16

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msel.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com)

For Atlantic Commercial Company Limited

Sd/-Narendra Kishore Gaur Chairman DIN - 00168265

Place: New Delhi Date: 28.06.2021

# E & DEVELOPMENT LIMITED

evelopment Limited, Mezzanine Floor, M-4, Office: C-1, Sector-3, NOIDA-201301 E-mail: 31-9999694526, Ph. 0120-4180500 Extn: 1102

nance & Development Limited under the terest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter read with Rule 3 of The Security Interest alling upon the below mentioned borrowers the said Notices.

prower and the public in general that the of powers conferred on him under Section

autioned not to deal with the properties and ince & Development Limited for an amount

Act", in respect of time available, to redeer

Property	Possession Notice	Outstanding Amount
or with e, of the bearing ated at	06.04.20211	Rs.57,97,673/- (Rupees Fifty Seven Lacs, Ninety Seven

26,06,2021

thousand, six hundred and seventy three only) as on 31.03.2021

# Shree Cement

### SHREE CEMENT LIMITED

REGD. OFFICE: BANGUR NAGAR, BEAWAR - 305 901, DISTT. AJMER, Rajasthan E-Mail: shreebwr@shreecement.com | Website: www.shreecement.com Phone: 01462- 228101-06 | FAX: 01462- 228117-19 | CIN: L26943RJ1979PLC001935

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to equity shareholders of Shree Cement Limited ('the Company') pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules') as notified by the Ministry of Corporate Affairs (and amended) read with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 for the time being in force.

IEPF Rules, among other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to the demat account of Investor Education, and Protection Fund Authority (IEPF Authority') in the prescribed manner.

Shareholders are hereby informed that unpaid / unclaimed amounts of Secondinterim Dividend for the year 2013-14 and Interim Dividend for the year 2014-15 declared by the Company on 25th August, 2014 shall become due for transfer to IEPF Authority after expiry of period of seven years on 30th September, 2021 together with corresponding eligible shares as aforesaid. The Company has sent communication to all concerned shareholder (s)at their registered addresses, inter alia, providing the details of unpaid divided(s) and shares which are liable to be transferred to IEPF Authority. The list of shareholders to whom the intimation has been sent is uploaded on website of the Company www.shreecement.com. Shareholders can also verify the details of unpaid / unclaimed dividend and the shares liable to be transferred from the website of the Company and approach with their claim.

The last date for the concerned shareholders to approach the Company for claiming the unclaimed dividend is 15th September 2021 failing which the Company shall transfer the dividend amount together with shares to IEPE authority in accordance with the

### ECONOMY 3

# India to allow ethanol-based 150-acre textile park to come up in Noida 'flex engines' in vehicles

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai June 28

INDIA HAS DECIDED to allow ethanol-based flex engines, which power ve-hicles using local farm produce and not fossilfu-els, and will be rolling out a scheme on the same in the next three months, Union minister Nitin Cadkaris aign Monday

the next three months, Union minister Nitin Gadkari said on Monday Gadkari said on Monday Gadkari said other countries of the world like Brazil, the US and Canada have flex engines which are powered by farm produce and ekohorted au tomakers like BMW, Mercedes and Toyofa to develop vehicles running on the alternative fuel.

A switch to locally-produced ethanol will be helpful for a country like Indiawhich relies majorly on crude oil imports for powering the transport sector, he said, adding that it will also be less polluting and cost-saving.

A litre of ethanol



Nitin Gadkari

es at between ₹60-

comes at between ₹60-62 per litre as against the over ₹100 paid for petrol, the minister said, admitting that the calorific value of the ethanol is low. "In the US, Brazill and Canada, they have flexen gines, so as the transport minister we are going to launch this flexengine facility to all the consumers in the country." Gadkari said at an event organised by state run lender indian Bank.

"We are going to launch this scheme now and within three months

e are going to start," he

Gadkari said the gov-ernment has already started giving permis-sions to establish 100% ethanol petrol pumps and added that Prime Minis-ter Narendra Modi has al-ready inaugurated two such facilities in Pune,

such facilities in Pune, Maharashtra.

"We can make ethanol from sugarcane juice molasses and now the government is giving permission to make ethanol from food grains that are from ince, com and food grains; he said, asking states like Tamil Madu, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh to take the lead, At present, India allows for 20% ucthanol blending in fuels.

20% ethanol-blending in fuels.

The country is saddled with excess stocks of rice and wheat as well, Gad-kari said, after flagging hunger as one of the key challenges for the coun-try.

DEEPA JAINANI Lucknow, June 28

PAVING THE WAY for Ut-tar Pradesh's first textile park, the Yamuna Ex-pressway Industrial De-

velopment Authority
(YEIDAl) has allotted 150
acres of land for the Apparel Export Cluster in
Noida.

As many as 152 companies will set up their

NEO INFRACON LIMITED

CAN NO. LOSSITURENTING FULL ASSIGNMENT OF THE CONTROL OF THE CONTR

			Stand	snote			Conso	Edated	
\$x,	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Guarter Ended		Year Ended	
962		21,03,21	31.12.26	31,03,21	31,231,36	31,35,21	21,52,20	31.81.21	21.63.86
		(Autited)	Sheudkech	(AUSSES)	(Acadited)	(Audited)	Unsublect	[Audited]	(Author)
1	Total recome from Operations(Inst)	9.71	03.0	636	43.79	1.887.79	78.74	1,806,29	1,753.06
2	Net Profit: (s.oso) from ordinary activities before spr	939	88.770	136,74	3.97	70.62	12.15	132.85	280.43
3	Net Profit (Lipse) from ordinary activities after tax	0.36	9.77	(28.51)	20.9%	47,57	11.45	107.26	1
4	Total Committenesse income to the period	17.365	3,75	29.51	3000	47,00	1828	100.26	218
5	Paid-up oquity share capital (Fana reduc ni Fie: 10 each)	580.54	830,88	530.68	500.68	530.06	.536958	5306	530.60
5	Reserves excluding Persounter Reserves Earnings on others Lifes 101 and in an annual sect			866	71.56			15.5	(107.96)
	a Besic & Blassi	5 14	20.170	18.540	180,000	638	168	2.02	418

### Twitter website displays distorted map of India; J&K, Ladakh shown outside India

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, June 28

AMID A STAND-OFF with the Indian government over compliance with new IT rules, the Twitter website is displaying a wrong map of the country that shows Jammu & Kashmir, and Ladakh as separate country.

The glaring distortion, which appears on the career section of Twitter website under the leader Tweep Life, has triggered a heavy backlash from netizens who are demanding strict action against the microblogging platform. This is not the first time that Twitterhas misrepresented india's map. Eartler, it had shown Leh as part of China. An e-mail sent to Twitter on the issue did not electra response.

The US digital ejant has

not befut a response.

The US digital giant has been engaged in a tussle with the Indian government over the newsocial media rules. The government has confronted Twitter for deliberate defiance and failure to comply with the countail to the countain th

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

PHUBLIC NOTICE

File in service yield to the police at a Proventiench Englissen PM Ltd.

File in service yield to the police at a Phusentiench Englissen PM Ltd.

File in service yield to the public at a Phus PM Ltd.

File in service yield yield to the public at a Phus PM Ltd.

File in service yield yie

mach and/or business. THE SECTION IS THE SECTION IN THE PROPERTY OF THE PROPER

Advisate and Society

try's new IT rules, despite re-peated reminders.
Notably, the microblogging platform has lost its legal shield as an intermediary in India, be-coming liable for users posting any unlawfulcontent.
On Monday, social media users slammed Twitter's gross mi-srepresentation of India's map.

ers shammed i vitter's gross mit-representation of India's map, that appears on its career sec-tion. The global map, showing 18 K, and Ladakh outside India, triggered angry responses from netizens who are demanding st-ringent action be initiated against the microblogging platform in October hast year, Twitter came under heavy criticism and faced backlash after its geotag-ging feature displayed "ammu & Kashmir, People's Republic of Chuna' in a live broadcast from Leh's Hall of Fame.

## **G**IFT

### **Gujarat International Finance Tec-City Company Limited**

E-Tender Notice for Invitation to Bid for Selection of Agency for Services on Item Rate Basis GIFTOL for itself and behalf of GIFT SEZ Limited invite bids from reputed, qualified, emprehaments and frameually sound Agencies to the following Services

Name of Service	Estimated Cost	Duration	Online availability of Bid Document	Last Date of Online Bid Submission	Last Date of Physical Bid Submission
Appointment of Agency for Providing Manpower for Maintenance of Landscape in GIFT City (GIFT DTA & GIFT SEZ Area) (RFP Reference No. GIFT/ LANDSCAPE/SC/2021/01)	Rs.4.24 Crore (excluding GST)	24 (Twenty Four) Months	29" June 2021 to 28" July 2021 up to 17:00 hrs	29" July 2021 up to 15:00 hrs	30" July 2021 up to 15:00 hrs

Tender fee of RFP/Bid document is Rs. 10,000° payable in the form of Demand Draft / Banker's Cheque/Pay Order from any Nationalized-Scheduled Bank drawn in favor of "Guarret International Finence Tescofity Company Limited" payable at Ahmedabad. For further details and updates please log on to our Website \*\*exercity\*\* girth payable \*\*inched \*\*payable \*\*inched \*\*in

Contact Person: Sd/President (Landscape) Managing Director & Group CEO
Tel: 079-61708300 E-mail: contract@giftgujarat.in

GUJARAT INTERNATIONAL FINANCE TEC-CITY COMPANY LIMITED EPS - Building no. 49A. Block 49. Zone 04, Gyan Marg. GIFT City, Gujarat. INDIA. Pin-382955. Tel.: +91 79 61708500 Fax.: +91 79 30018321 CIN:U45200GJ2008PI.C054999



GFL LIMITED (earlier known as Gujarat Fluorochemicals Limited)
CIN: 124110GJ987 PLC009362. Website: www.gflimited.co.in. email: contact@gflimited.co.in
Registered Office: 16/3, 26 & 27, Village Ranjitnagar, TalukaGoghamba,
District Panchmahals, Gujarat 389 380

### EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2021

		Quarter	nded	Year e	nded
		31-03-2021]	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
			(Restated)@		(Restated)@
1.	Yotal Income from continuing operations	11,914	37.638	15,037	1,91,673
2.	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax from continuing operations (Before exceptional Items)	(11,580)	(2,199)	(43,899)	12,896
3.	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax from centinuing operations (After exceptional Items)	(12,018)	(2,199)	(44,406)	12,896
4.	Net Front/(Loss) for the period/year after tax from continuing operations (After exceptional flems)	(9316)	(8,338)	(33,568)	1,519
5.	Loss from discontinued operations after tax	-1	(17,375)	(9,430)	(25,166)
6.	Loss for the period/year	(9,316)	(25,713)	(42,998)	(23.647)
7.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period/year after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(9,252)	(25,739)	(42,878)	(23,676)
8.	Paid-up equity share capital (face value Rs. 10 per share)	1,099	1,099	1,099	1,099
9,	Other Equity (excluding revaluation reserves)			36,160	2,16,775
10.	Basic and Diluted Earnings/Loss per share Hace value of Rs.10/- each )				
	From continuing operations	(8,48)	(7.59)	(30.56)	1.38
	From discontinued operations		(15.82)	(8.58)	(22.91)
	From total operations	(8,48)	(23,41)	(39.14)	(21.53

- The Hunfule National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench ("NCLT") vide its order dated 25th January, 2021 has approved a Company Limited into Renewables Limited and Inex Wind Energy Limited (whelive-wine) subsidiaries of GPL Limited.

Part A - Analgomation of its wholly-exmed subsidiary inor Renewables Limited (REL) mto GFL Limited was E. Lis April 2020, and Part B - Demorger of the Knewshie Energy Business (as more particularly defined in the Scheme) of GFL Limited Into its wholly-corned sub-dimined, a newly incop parted company for the purpose of vesting of the Sacreswide Fee. grif towns was 15 Littley Control.

osaid Scheme was filed with the Registrar of Companies (ROC) on 9th February, 2021 making the Scheme operative, Igamation stated in the Part A of the Scheme is accounted in accordance with Appendix C of Ind AS 103: Business C

		Quarter e	nded	Year e	ded	
		31-03-2021	31-03-2021 31-03-2020 31-03-2	31-03-2021	31-03-2020	
			(Restated)@		(Restated)@	
1.	Total income from continuing operations	17	34	110	787	
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax from continuing operations (After exceptional Items)	(46)	1,6	. (227)	504	
3.	Net Profit/(Loss) for the Period after tax from continuing operations (After exceptional Items)	(50)	12	(227)	499	
4.	Profit/(loss) from discontinued operations	- 1	107	(2,485)	1,386	
5.	Profit/(loss) for the period/year	(50)	119	(3.122)	1867	

Ø See Note 3

On behalf of the Board of Directors For GFL Limited

JAGJANANI TEXTILES LIMITED

SCOS No. 33 & 34 RICO Supping Complex, Saona Pat 4 - 81-41 CRN No. 1 17 DRININGPREDISIAND.

Total Income from Operations (net) Not Profif(Loss) from ordinary activities effect tax Not Profif(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) Equity Share Capital Earning per share (after extraordinar items) (of \$10° each) (not annualised) Basic & Dilute) 204 1678) (199) 51226 156000 156000 156000 156000

FOR JAGJANANI TEXTLES LIMITED Nikhil Sharma Company Secretary

# ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

office: Unit No 2953, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Mano Bara Hindu Pao, Delhi. 110008 CN: 1.51959D. 1985PL (D28272, Ph. 011.4533140 E-mail ID: Hindtedatlantic@gmail.com, Website: www.aflantic-co

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

		(	lusrter Ende	Year Ended		
SI	Particulars	31,43,2021	31,12,2020	31.03.2020	31.03.2021	31.83,2026
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	4 00		5.00	4.00	5.00
2	Ret Profit*(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extracirdinary items)	3.29	(0.32)	4.38	9 66	1.62
3	Net Profit (Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.29	(0.32)	4.38	0.66	1.62
4	Ref Profit(Loss) for the year after fax (after Exceptional and/or Exceptionary items)	3.13	(0.32)	3.93	0.49	1.18
5	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profiti(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	3.13	(0.32)	3.93	0.49	1,18
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
Y	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Satance Sheet of the previous year				47.75	47.26
8	Earnings per share (of \$10- each) (for continuing and discontinuing operations) - 1. Besic (in \$1) 2. Distrate (in \$1):	0.43 0.43	(0.64) (0.64)	0.53 0.53	9.97 3.97	0.16 0.16

Sd/-Narendra Kishore Geu Chairman DN - 00168265

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

tible 3 (1) Ditthe Security Insertia; to add the decinist decinist decinist (CCCI) under Securitisation And Reconstruct said Act). In exercise of powers conferred under inforcement) Nulse, 2002, the Authorseed Officer and in the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)" issued to them that are also given below. In contact is to pay to CSCI, within 60 days from the publication to pay to CSCI, within 60 days from the publication.

5.N	Name of the Borrower(s); Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	(himovable property)
1.	(Losn Acciont No. LIMETHAD00045422) Thane Branch) Kishorkumar Mehta (Bocrower) Norendrakumar Harshchand Mehta, Pankaj Narendrabhar Mehta, Ramilaben Kishorkumar Mehta, Dhaval Kishor Mehta, M/s Aadimse Enterprises, (Or-Bocrower)	18-06-2021 Rs. 25,87,325/-	Where and Fund of Plot No. 27, RS No. 191973 Swastik Nagar, Village Bhachau, Kachathi, Gujrat alongwith Construction thereon Present and Future both.
2.	(Lion Accome Yo. LNGCCAHETLOGOGOSTSIS)  LNGCCMAVILOGOGOSTSIS Almendabad Pranch (Brmi Tours And Travels Private Limited (Browner)  Naresh Vikrambhal Nandwana, Jayendra Cheharbhai Gohil (Co-Borrower)	21-06-2021 Rs. 59,26,509/-	All Pice and Farrel of Raw House No. 352 (106 Ba- House No. 250). Chanaloypund Sector No. 57. (106 Ba- House No. 250). Chanaloypund Sector No. 57. (107 Survey No. 2089, Revenue Survey No. 142, 143 147 and 149 Paik, 179 No. 10, 18 Ph. No. 100, 197 Mouje Chatlodiya, Taluka Ghatdodiya, Nr. Raihwa Crossinp, Dist R. 5 Sub District Almedabase Gujara 380061. Along with Construction Thereon presen and future Both, Bourdaries as under : East Margin Space West:-Road North: Raw H N. 35 South:- Road

Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed agains tion 13/4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borro-cess. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assistences without the prior written consent of CGCL. Any person who continuences or of the said Actor Rules made the reunder, shallbe liable for improximent and/or penalty





Registered Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place New Dette-110 019 Phone: 011-41732000 Fax: 011-26488471 CIN : L74899DL1993GOI05367

## EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED)

SŁ.	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	SI	ndalone Rest	Re	Cox	solidated Res	(? to corres)
an. Vic.	Particulars	Quarter Ended 31.93.2021 (Unsudited)	Year Ended 31/33/2021 (Audited)	Quarter Encist 31/03/28/20 (Unautified)	Quarter Ended \$1,03,2021 (Unavalided)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)	Guarter Ended 31/03/2020 (Undudfied)
1	Total income from operations	(148.42)	1,396.92	749.31	15.78	2,093.81	868.99
2	Net Profit / Bossi for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary terms)	(661.57)	(2,147.23)	(\$15.27)	(665.31)	(2,087.16)	(508.64)
3	Net Profit (flows) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(661.57)	(2.147.23)	(515.27)	(662.94)	(2,084.79)	(512.60)
4	Not Profit (floss) for the period after Tax (after Exceptional anctor Extraordinary Items)	(848.64)	(1,957.81)	(589,68)	(848.97)	(1,911.58)	(584.19)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Paralli floss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(852.96)	(1,935.68)	(586.68)	(692,24)	(1,495.37)	(497.02)
6	Equity share copital (Face Value of Rs.10)- each)	1,895,99	1,895.99	1,695,99	1,895,99	1,895.99	1,695.99
7	Other equity (as per audited balance sheet as at 31st March)		476.11			1,841,97	
8	Earnings per share (face value of \$10 each) (not arrusified for the interim periods).						
	(a) Basic (T)	(4.48)	(10.33)	(3.48)	(4.51)	(10.24)	(3.38)
	(b) Diluted (f)	(4.48)	(10.33)	(3.48)	(4,51)	(10.24)	(3.38)

- The above financial results were reviewed by the Aucit Committee and approved by the Board of Directors a the meeting held on 28th June 2021. These results have been audited by the Statutory Auditors of the Company, M/s M K. Agganwal & Co. Chartered Accountants.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchangunder Regulation 33 of the SEBI (Ustring and Other Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as modify official or 0.0 (IRCPOFACIAE.22016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly Financial Researe available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindial.com) and on company's website, www.ifclitd.com. BY ORDER OF THE BOARD

Place: New Delhi Date: 28" June, 2021







(Manoj Mittal)
Managing Director and
Chief Executive Officer

In Development of the nation Since 1948

. Г

तथा उनकी ओर से कर ग्लोबल लिमिटेड हस्ता/-

हरण कणिका वर्मा) क्ष य प्रबंध निदेशक DIN:0034343

दल्ली--110001

तीय परिणाम (स लाखों में) स्थानः नोएडा

विधिः 28.06.2021

समाप्त वर्ष .03.2021 31.03/2020 शंकेकित अविकित 168,14 4313.08 37.98 132.28 37.98 132.28

28.36 97.81 28.36 111.26 702.05 702.05

ही और वर्ष के लिए की गई है और फिर

के विनियम 33 के 1 को समाप्त तिमाही ग्राप्त तिमाही और वर्ष

र हानि के विवरण में

हत्वपूर्ण गड़बड़ी और जो संपत्ति की वसूली रेस्थितियों के वर्तमान राशि की वसूली की भौतिक परिवर्तन की भविष्य में कंपनी की ख से अनुमानित रूप

ट्रिंगाइजेज लिमिटेड हस्ता./-वस्ता./ — वायुव जिंदल अनुपालन अधिकारी) वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.orosil.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.beeindia.com पर उपलब्ध है।

- पिछली वर्ष / तिमाही के आकड़ों को तिमाही / वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ पुनःसमूहित / पुनःवर्गीकृत
- नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19), एक वैध्विक महामारी, ने भारत सहित पूरे विश्व की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है और इंसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रचालन और परिणाम प्रभावित हुए हैं।
- 31.03.2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं थे।
- समीक्षाचीन वर्ष के दौरान श्री बी. के नक्तला, कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने 50% पारिक्षमिक को छोड दिया।

हस्ता./-बी. के नकला

निर्देशक गंडल के आदेश से कृते ओरोसिल रिमध्स इंडिया लिमिटेड (प्रबंध निदेशक) DIN: 00003629

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lai Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi- 110006 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140

E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

		C	luarter Ende	d	Year	Ended	
SI.	Particulars	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020 Audited	
	STATE STATE AND ADDRESS.	Audited .	Unaudited	Audited	Audited		
1	Total income from operations	4.00	-	5.00	4.00	5.00	
2	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.28	(0.32)	4.38	, 0.66	1.62	
3	Net Profit/(Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.28	(0.32)	4.38	0.66	1.62	
4	Net Profit/(Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.13	(0.32)	3,93	0.49	1.18	
5	Total Comprehensive Income for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.13	(0.32)	3,93	0.49	1.18	
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-			47.75	47.26	
8	Earnings per share (of ₹10/-each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic (in ₹):  2. Diluted (in ₹):	0.43 0.43	(0.04) (0.04)	0.53 0,53	0.07 0.07	0.16 0.16	

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

For Atlantic Commercial Company Limited

Narendra Kishore Gaur Place: New Delhi Chairman DIN - 00168265 Date: 28.06.2021

दिल्ली—110024 इसके अट (94-बी पुराना सं) सत नग कार्सिक कपूर गृतीय तल इसके अलावा: 94-प/2 स) संत नगर, इस्ट ऑफ गृतीय तल, एल-50, लाज 94-प/2 (94-सी पुराना ईस्ट ऑफ केलाश, नई दित

इंस्ट ऑफ केलाश, नहे दित स्वर्गीय श्री दयाल कपूर श्रीमती सरोज कपूर पंत ताजपत नगन्द 2 नहे दि दूपराना से। और 94-ए/1 नहे दिल्ली-110065 1शी. तृतीय तल, एल-50, लाज 94-ए/2 194-सी पुराना इंस्ट ऑफ केलाश नहें दित दयाल कपूर तृतीय तल, इनके अलाजा 94-ए/2 स) सत नगर, इंस्ट ऑफ इपूर तृतीय तल, एल-50 उत्तर्गत अप-ए/2 (94-स सत प्रार, इंस्ट ऑफ केल पुरीय तल, एल-50, लाज 94-ए/2 (94-सी पुराना इंस्ट ऑफ केलाश, नहें दिव

तिथि: 29/06/2021, स्थान ई नोएडा

# DO

	SI. No	Particulars  Total income from operation  Net Profit / (Loss) from one
	1	Total income from operation
	2	Net Profit / (Loss) from on

- Net Profit / (Loss) from ord (before Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the p (after Exceptional items)
- Total comprehensive inco [Comprising Profit / (Loss) Other Comprehensive Inc.
- Paid up Equity Share Capl Earnings Per Share (before of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):
- Earnings Per Share (after Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):

Note: The above is an ext of the SEBI (Listing Obligation on the Company's Website at w

Place: New Delhi Date: 28-06-2021

### SLIMITED

dabad-121004, (Haryana) bsite: http://www.cenlub.in 987 Email: investors@cenlub.in and Year ended 31 March 2021

(Rs. In Lakhs)								
Ended	Year Ended							
31-Mar-20 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-20 (Audited)						
1,446.48	4,233.01	4,020.01						
197.08	576.43	303.05						
197.08	576.43	406.87						
149.78	401.27	276.36						

# **POWERTRAIN**

FEDERAL-MOGUL GOETZE (IND

Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F - 79 & 80, Okhla Phas Corp off. 10th Floor, Paras Twin Towers Tower B" Golf Course Road, Secto Website: www.federalmoguigoetzeindia.net, CIN: L74899 E mail: investor.grievance@federalmogul.com Phone/Fai

Statement of financial results for the quarter and year ended 31 March

		Standalone						
SI No.	Particulars	Quarter ended 31 March 2021 (Refer note-4)	Quarter ended 31 Dec. 2020 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2020 [Refer note-4]	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March 2021 (Refer note-4)	1
1.	Total Income from operations	37,091.66	85,043.23	23,027,74	108,685.54	106,639.22	37,632.30	Ī
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,846.43	3,984.63	391.72	4,331.50	3,309.97	4,257.12	
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(428.57)	3,984.63	391.72	56,50	3,309.97	(17.88)	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(698.87)	3,311.99	194.97	76.62	2,983,60	(420.84)	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(455.73)	321120		31076	207162	217432)	